

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(मिनिरातना कंपनी)
(कोल इण्डिया लिमिटेड की अनुषंगी कंपनी)



Northern Coalfields Limited

(A Miniratna Company)

(A subsidiary of Coal India Limited)

जनसंपर्क विभाग /Public Relations Department



CIN- U10102MP1985GOI003160

An ISO: 9001, ISO: 14001 & OHSAS: 18001 Certified Company

पोस्ट- सिंगरौली कोलियरी, जिला- सिंगरौली, म.प्र., पिन 486889/ Post- Singrauli Colliery, Distt- Singrauli, M.P. PIN-486889

Phone: 07805- 266808, (FAX) 266640 email: pro.ncl@coalindia.in website : www.nclcil.in

एनसीएल/ज.स./प्रे.वि./2017-18/ 523

दिनांक - 05.01.18

प्रेस विज्ञप्ति

जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाने हेतु एनसीएल का एक और प्रयास

एनसीएल मुख्यालय की सीएसआर टीम ने बिरकुनिया ग्राम पंचायत के
अनुसूचित जनजाति के लोगों को दिए 80 कंबल

लगातार बढ़ती जा रही सर्दी में जरूरतमंदों को कड़ाके की ठंड से बचाने हेतु नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) अपनी निगमित सामाजिक दायित्व (सीएसआर) योजना के तहत एनसीएल परिक्षेत्र के जरूरतमंद लोगों के बीच लगातार कंबल वितरित कर रही है। शुक्रवार को एनसीएल मुख्यालय की सीएसआर टीम ने एनसीएल मुख्यालय स्थित अधिकारी मनोरंजन गृह में जरूरतमंद लोगों के बीच कंबल बांटे। कंबल वितरण कार्यक्रम में एनसीएल के महाप्रबंधक (सीएसआर) श्री वी0के0 अग्रवाल बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित थे।

एनसीएल की सीएसआर टीम ने बिरकुनिया ग्राम पंचायत के अनुसूचित जनजाति (एसटी) लोगों को कंबल दिए। कंबल वितरण से बैगा एवं कोल जनजातियों के 80 जरूरतमंद लोग लाभवित हुए।

कार्यक्रम में उपस्थित बिरकुनिया ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच श्री उमेश बैश्य ने कंबल वितरण के माध्यम से उनकी पंचायत के जरूरतमंद लोगों को सर्दी से बचने में सहयोग देने के लिए एनसीएल प्रबंधन का आभार जताया। साथ ही, उन्होंने कहा कि एनसीएल ने उनकी ग्राम पंचायत के बहुमुखी विकास में भरपूर योगदान दिया है और उम्मीद जताई कि कंपनी भविष्य में भी उनकी पंचायत के विकास में अपना बहुमूल्य योगदान देती रहेगी।

एनसीएल के मुख्य प्रबन्धक (सिविल/सीएसआर) श्री बिकुल बोरठाकुर ने कार्यक्रम में जानकारी जानकारी दी कि लगातार ठंड को देखते हुए एनसीएल शीघ्र ही जरूरतमंदों के बीच और भी कंबल बांटेगी। उन्होंने ग्रामीणों से एनसीएल द्वारा किए जा रहे कंबल वितरण का अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की।

कंबल वितरण कार्यक्रम के आयोजन में एनसीएल के सहायक प्रबंधक (सामुदायिक विकास) श्री श्री अभिषेक कुमार और एनसीएल मुख्यालय के सीएसआर विभाग के कर्मचारियों ने सहयोग किया।

जनसंपर्क अधिकारी